



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 361] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 1979/कार्तिक 28, 1901
No. 361] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 1979/KARTIKA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 630(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम,
1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड
(1) के अन्वय में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना
सं. 209-सी. शु. [सा. का. नि. सं. 606(अ)] तारीख 31 अक्टूबर, 1979
द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं. 202-सी. शु. [सा. का. नि. सं. 561
(अ)] तारीख 1 अक्टूबर, 1979 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है,

अर्थात् उक्त अधिमूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 14 और उससे संबंध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
14	पाउंड स्टर्लिंग	5.6720

[सं. 220-सी. श./फा. सं. 503/6/79-सी. श.-61

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 630(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. 202-Cus. [G.S.R. No. 571(E)] dated 1st October, 1979 as amended by Notification No. 209-Cus. [G.S.R. No. 606(E)], dated 31st October, 1979, namely :—

In the Schedule below the said notification—For Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14	Pound Sterling	5.6720

[No. 220-Cus./F. No. 503/6/79-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.